



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1935 (श0)
(सं0 पटना 842) पटना, सोमवार, 11 नवम्बर 2013

सं0 11/वि04-काला०नि०छूट-03/2001-सा०प्र०—17250
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

6 नवम्बर 2013

विषय:- राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए कोटि-वेतन (Grade-Pay) आधारित निर्धारित कालावधि का संशोधन।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में भारत सरकार के अधीन कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या-ए०बी०- 14017/61/2008 -ईस्ट-(आर०आर०) दिनांक 24.03.2009 द्वारा कोटि-वेतन(Grade-Pay) के आधार पर कालावधि पुनर्निर्धारित की जा चुकी है। चूँकि राज्यधीन सेवाओं में भी कोटि-वेतन(Grade-Pay) आधारित वेतन पुनरीक्षण किया जा चुका है, अतः तत्आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-1800 दिनांक 09.06.2011 द्वारा कोटि-वेतन(Grade-Pay) आधारित कालावधि का पुनर्निर्धारण किया जा चुका है।

(2) विवेचित कालावधि निर्धारण में कोटि-वेतन 1800 से 1900 तक से लेकर 8900 से 10,000 तक के लिए कुल 24(चौबीस) ग्रेड-पे में प्रोन्नति हेतु अलग-अलग कालावधि का निर्धारण किया गया है, परन्तु 2400 से 4600 ग्रेड-पे में प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण नहीं किया जा सका है। विदित हो कि वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापक-630 दिनांक 21.01.2010 द्वारा सहायक एवं निजी सहायक को PB-2 में 4600 ग्रेड-पे निर्धारित किया गया है, तत् आलोक में 2400 से 4600 ग्रेड-पे में प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त PB 2+5400/- से PB 3+5400/- हेतु भी कालावधि का निर्धारण आवश्यक है।

(3) अतः सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के कालावधि निर्धारण संबंधी संकल्प संख्या-1800 दिनांक 09.06.2011 की कंडिका-3(i) में निम्नांकित समावेशन किया जाय:-

क्रमांक	कोटिवेतन(Grade-Pay)		न्यूनतम अर्हक सेवा (कालावधि)
	से	तक	
25	2400	4600	10 वर्ष
26	PB 2+5400	PB 3 +5400	04 वर्ष

संकल्प संख्या-1800 दिनांक 09.06.2011 की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी ।
 आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
वीरेन्द्र प्रसाद यादव,
 सरकार के अपर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 842-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>